



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130]
No. 130]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1979/वैशाख 7, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1979/VAISAKHA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

सां०कां०नि० 271(अ).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33 वां) की धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (घो०) के साथ पठित उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियमावली, 1976 का संशोधन करके निम्नलिखित और नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1979 कहा जाये।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियमावली, 1976 की अनुसूची II के भाग 1 में,
(क) महाराष्ट्र से संबंधित मद 4 के सामने मौजूबा इन्दिरा के स्थान पर निम्नलिखित इन्दिरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

राज्य का नाम	अधिनियम का उपबंध जिसके अधीन आदेश किया गया है	नगर संचयीकरण का नाम जिसमें भूमि या भवन मंजूर भूमि स्थित है	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4
4. महाराष्ट्र	(1) इस अधिनियम की धारा 11 या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आवेशों के प्रति-रिक्त उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश	(क) ग्रेटर बम्बई नगर संचयीकरण (इसके बाह्य क्षेत्र को छोड़कर)। (ख) पुणे नगर संचयीकरण	अपर मंडल आयुक्त, बम्बई मंडल आयुक्त, पुणे/अपर मंडल-आयुक्त पुणे।

1	2	3	4
	(2) इस अधिनियम की धारा 11, धारा 21 अथवा धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के प्रतिरक्त उक्त अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश	(1) उल्हासनगर, थाणे और पुणे नगर-संघटीकरण तथा भेडर बम्बई नगर संघटीकरण के बाह्य क्षेत्र के अलावा राज्य के अन्य सभी नगर संघटीकरण (2) (क) उल्हासनगर नगर-संघटीकरण (ख) थाणे नगर संघटीकरण (ग) कोलाबा जिला के अंतर्गत आने वाले बाह्य क्षेत्र को छोड़कर भेडर बम्बई नगर संघटीकरण का बाह्य क्षेत्र (3) कोलाबा जिला के अंतर्गत आने वाले भेडर बम्बई नगर संघटीकरण का बाह्य क्षेत्र	जिस जिले में नगर संघटीकरण स्थित हो उस जिले का आयुक्त
	(3) इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्रत्येक आदेश	1. (क) थाणे नगर संघटीकरण (ख) उल्हासनगर नगर संघटीकरण (ग) नासिक नगर संघटीकरण 2. (क) कोल्हापुरनगर नगर-संघटीकरण (ख) सोलापुर नगर संघटीकरण (ग) संगली नगर संघटीकरण 3. नागपुर नगर संघटीकरण	अथवा, कोसावा अथपर मंडल आयुक्त, बम्बई मंडल-आयुक्त, पुणे/अथपर मंडल-आयुक्त, पुणे मंडल-आयुक्त, नागपुर/अथपर मंडल आयुक्त, नागपुर
2 ए० बिहार	इस अधिनियम की धारा 11 अथवा धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अलावा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आदेश	1. पटना नगर संघटीकरण 2. राँची और जमशेदपुर नगर-संघटीकरण 3. धनबाद नगर संघटीकरण	आयुक्त, पटना मंडल आयुक्त, दक्षिणी छोटा नागपुर मंडल, राँची आयुक्त, उत्तरी छोटा नागपुर मंडल, हजारी बाग।

[फाइल संख्या 3/5/79-यू०सी०यू०]
मीर नसबुल्लाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1979

GSR, 271(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (i) of sub-section (2) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Second Amendment Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, in Part I,

(a) against item 4 relating to Maharashtra, for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

Name of the State	Provision of the Act under which the order has been made	Urban agglomeration within which the lands or lands with buildings are situated	Appellate authority
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Maharashtra	(1) Every order under the Act other than an order under section 11 or sub-section (1) of Sec. 30.	(a) Greater Bombay Urban Agglomeration excluding its peripheral area. (b) Pune Urban Agglomeration.	Additional Divisional Commissioner, Bombay. Divisional Commissioner, Pune/ Additional Divisional Commissioner, Pune.
	(2) Every order under the Act other than an order under section 11, section 21 or sub-section (1) of section 30.	(1) All other Urban Agglomerations within the State excluding Ulhasnagar, Thane and Pune Urban Agglomerations as well as the peripheral area of Greater Bombay Urban Agglomeration. (2) (a) Ulhasnagar Urban Agglomeration. (b) Thane Urban Agglomeration. (c) The peripheral area of the Greater Bombay Urban Agglomeration other than peripheral area falling within the district of Kolaba. (3) The peripheral area of the Greater Bombay Urban Agglomeration falling within the district of Kolaba.	The Collector of the District in which the Urban Agglomerations situate. Collector, Thane. Collector, Kolaba.
	(3) Every order under section 21 of the Act.	1. (a) Thane Urban Agglomeration. (b) Ulhasnagar Urban Agglomeration. (c) Nasik Urban Agglomeration. 2. (a) Kolhapur Urban Agglomeration. (b) Sholapur Urban Agglomeration. (c) Sangli Urban Agglomeration. 3. Nagpur Urban Agglomeration.	Additional Divisional Commissioner, Bombay. Divisional Commissioner, Pune/ Additional Divisional Commissioner, Pune. Divisional Commissioner, Nagpur/ Additional Divisional Commissioner, Nagpur.
2A. Bihar.	Every order under the Act other than an order under section 11 or sub-section (1) of section 30.	1. Patna Urban Agglomeration. 2. Ranchi and Jamshedpur Urban Agglomerations. 3. Dhanbad Urban Agglomeration.	Commissioner, Patna Division, Patna. Commissioner, South Chotanagpur Division, Ranchi. Commissioner, North Chotanagpur, Division Hazaribagh.

[F. No. 3/5/79-UCU]

Mu NASRULLAH, Joint Secy.

